



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 630) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2013

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

आदेश
25 जुलाई 2013

सं0 727—बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-22/ अनु0-04/2011 सा0-5958, पटना, दिनांक 25 अप्रैल 2012 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के पत्रांक 366 दिनांक 03.04.2013 द्वारा प्राप्त श्री पवन कुमार पिता-स्व0 मसुदन सिंह, अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत (नालन्दा) का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्रों) की जाँच के आलोक में दिनांक 16.05.2013 को जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही का ज्ञापांक-871 स्था0, दिनांक 7.06.2013 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में श्री पवन कुमार, ग्रा0-खैराबाद, पो0- बिहारशरीफ था0-बिहारशरीफ, प्रखंड-बिहारशरीफ, अनुमंडल-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20,200) ग्रेड पे-1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन तृतीय वर्ग निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री पवन कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में वर्ग तीन के निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

2. स्व0 मसुदन सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री पवन कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टी होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।

5. अगर श्री पवन कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कार्यपालक अभियंता शैक्षणिक योग्यता की जाँच संबंधित बोर्ड/युनिवरसीटी से सत्यापन के पश्चात योगदान स्वीकार करेंगे तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से वियुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. शादी-व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1964, दिनांक 31.06.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
अधीक्षण अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 630-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>